

## हमीरपुर जिले मे तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

भा. कृ. अ. प.- भारतीयकृषि अनुसंधानसंस्थान, क्षेत्रीय केंद्र , शिमला द्वारा हमीरपुर जिले के किसानों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 9/12/2018 से 11/12/2018 तक किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में डा. मधु पटियाल ने संस्थान के बारे में संक्षिप्त जानकारी किसानों को दी। डा. मधु पटियाल ने गेहूँ और जौ की नई बीमारी प्रतिरोधि एवं उच्च उपजाऊ नवीनतम किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी दी। गेहूँ की बीमारियाँ विशेषकर पीले रतुए के बारे में किसानों को जागृत किया गया। इसके बाद खेतों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताया गया।

चो.सा. कु., हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र , बड़ा , के विषय वाद विशेषज्ञ ( कीट विज्ञान) (सब्जेक्ट मेटर स्पेशलिस्ट) डा. अंजना ठाकुर ने सब्जियों के मुख्य कीटोंके लक्षण, जीवनचक्र और उनका एकीकृत प्रबंधन कैसे किया जाए इससे किसानों को अवगत कराया। उन्होंने शून्य लागत खेती एवं जैविक खेती की भी जानकारी किसानों को दी। डा. मधु पटियाल ने सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा अन्य फसलों जैसे चलाई, रिसबीन की भी जानकारी इस प्रोग्राम में किसानों को दी गई।

कार्यक्रम में किसानों के लिए बना एगएएक्सटेंशन फ़ोल्डर्स का वितरण भी किया गया। प्रशिक्षण में फील्ड विजिट के दौरान किसानों की शंकाओं का उचित समाधान वैज्ञानिकों ने किया। तीन दिवसीय कार्यक्रम में कुल 42 किसान सहभागी हुए। अंत में डा. मधु पटियाल ने कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत प्रधान व पंचायत के अन्य मान्यवरों , किसानों का आभार व्यक्त किया। इस प्रशिक्षण का आयोजन डा. मधु पटियाल (वैज्ञानिक) एवम डा. अंजना ठाकुर (सब्जेक्ट मेटर स्पेशलिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र, बड़ा, चो.सा.कु., हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय) ने अध्यक्ष, केंद्रीय क्षेत्र शिमला एवं इंचार्ज कृषि विज्ञान केंद्र, बड़ा के सहयोग से किया।

डा. कल्लोल प्रामाणिक  
अध्यक्ष, क्षेत्रीय केंद्र शिमला

